

तुरंत रिलीज के लिए

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए और छोटे और मध्यम कारोबारियों के लिए रैपिड स्क्रीनिंग के साथ लोकल अर्थव्यवस्था को बहाल करने के लिए आर.आई.सी. सेंटर और कम्युनिटेक के साथ साझेदारी की

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (9 जून, 2021) – आज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने घोषणा की कि इसके इकोनॉमिक डिवेलपमेंट ऑफिस (Economic Development Office) ने, ब्रैम्पटन एमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफिस (Brampton Emergency Management Office) के साथ मिलकर, ब्रैम्पटन में छोटे और मध्यम कारोबारियों को, मुफ्त कोविड-19 (COVID-19) रैपिड स्क्रीनिंग किट्स प्रदान करने के लिए, आर.आई.सी. सेंटर (RIC Centre) और कम्युनिटेक (Communitech) के साथ साझेदारी की है। [StaySafe](#) नामक प्रोग्राम, कोविड-19 को फैलने से रोकने में मदद करेगा और लोकल अर्थव्यवस्था की बहाली में तेजी लाने को सुनिश्चित करेगा।

रैपिड एंटीजन स्क्रीनिंग, बिना लक्षणों वाले कोविड-19 संक्रमित व्यक्तियों के द्वारा इसे कार्यस्थल में फैलाने से पहले, उनकी पहचान करने में मदद का एक तत्काली तरीका है। बिना लक्षणों वाले और लक्षण दिखाई देने से पहले संक्रमित होने वाले व्यक्तियों की जल्दी पहचान करना, कार्यस्थल और कम्युनिटी, दोनों के अंदर इसे फैलने से सीमित करने का एक प्रभावी तरीका है। StaySafe, रैपिड स्क्रीनिंग किट तक पहुंच प्रदान करता है, ताकि कारोबारी, कार्यस्थल स्क्रीनिंग प्रोग्राम का प्रबंध कर पाएं।

StaySafe

फेडरल और प्रोविंसियल सरकारों के द्वारा फंड प्राप्त, StaySafe प्रोग्राम उन सभी कारोबारियों के लिए मुफ्त है, जिनके 150 से कम कर्मचारी हैं, जो घर से काम नहीं कर सकते या काम पर होने के समय शारीरिक दूरी नहीं रख सकते।

रैपिड एंटीजन प्वाइंट-ऑफ केयर स्क्रीनिंग टेस्टों से, कर्मचारी काम से पहले खुद टेस्ट कर सकते हैं और मिनटों के अंदर ही उस टेस्ट के नतीजे देख सकते हैं। यदि किसी कर्मचारी का टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो इम्प्लायर उसे, अधिक निश्चित टेस्टिंग के लिए निकटतम कोविड टेस्टिंग सेंटर भेज सकता है, जिससे अन्य कर्मचारियों को वायरस के संपर्क के जोखिम से बचाया जा सकता है।

यह अवसर ब्रैम्पटन के, 150 या कम कर्मचारियों वाले संगठनों के लिए खुला है। पहला ऑर्डर लेने से पहले, इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए, ट्रेनिंग और रजिस्ट्रेशन जरूरी है। संगठन, [यहां प्रोग्राम के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और साइन अप कर \(learn more about the program and sign up here\)](#) सकते हैं।

150 से अधिक कर्मचारियों वाले कारोबारी, ओनटैरियो के [सरकारी पोर्टल \(government portal\)](#) से सीधे ऑर्डर कर सकते हैं।

आर्थिक बहाली

शहर को [दुबारा खोलने के प्रांत के रोडमैप के स्टेप वन \(Step One of the Province's Roadmap to Reopen\)](#) के अंतर्गत, गैर-जरूरी रिटेल में 15 प्रतिशत कैपेसिटी सीमाओं की अनुमति है, बेचे जा सकने वाले सामान पर कोई पाबंदी नहीं है, जरूरी और अन्य चुनिंदा रिटेल के लिए 25 प्रतिशत कैपेसिटी सीमाओं की अनुमति है, बेचे जा सकने वाले सामान पर कोई पाबंदी नहीं है। चूंकि कारोबारी दुबारा खोलने की

तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में रैपिड एंटीजन टेस्टिंग न केवल श्रमिकों को सुरक्षित रखने में मदद करेगी, बल्कि यह आत्मविश्वास के साथ, लोकल कारोबारों में दाखिल होने में भी ब्रैम्पटन के निवासियों की मदद करेगी।

पिछले वर्ष, ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल (Brampton City Council) ने, लोकल अर्थव्यवस्था को बहाल करने के साथ सिटी के आगे बढ़ने के लिए फ्रेमवर्क के तौर पर, [ब्रैम्पटन की इकोनॉमिक रिकवरी स्ट्रैटजी \(Brampton's Economic Recovery Strategy\)](#) की हिमायत की थी। इकोनॉमिक रिकवरी स्ट्रैटजी (Economic Recovery Strategy) का उद्देश्य, ब्रैम्पटन की अर्थव्यवस्था के आगे बढ़ने के समय, इसे पहले जैसी स्थिति में लाना और प्रतिस्पर्धात्मक लाभ पहुंचाना है। यह स्ट्रैटजी, चार ज़रूरी चीज़ों में संगठित की गई है: इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रीनियरशिप, जिसमें उद्यमियों और छोटे कारोबारियों के लिए बेहतर सहायता शामिल है; निवेश; कला, संस्कृति और टूरिज्म; और इंफ्रास्ट्रक्चर। www.brampton.ca पर अधिक जानकारी प्राप्त करें।

हवाले

“कोविड-19 महामारी ने हमारे लोकल कारोबारियों और ब्रैम्पटन की बड़ी कम्युनिटी को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया है। रैपिड स्क्रीनिंग के अलावा, इकट्ठे काम जारी रखकर और हमारे लिए उपलब्ध सभी साधनों का इस्तेमाल करके – शारीरिक दूरी रखकर, मास्क पहनकर, अच्छी तरह सफाई रखकर और पब्लिक हेल्थ के सभी उपायों का पालन करके – हम अपने सभी प्रियजनों के साथ मिलने-जुलने और हमारी पसंदीदा गतिविधियों में हिस्सा लेने और ब्रैम्पटन के हमारे शानदार कारोबारियों से सुरक्षित रूप से खरीदारी करने के एक कदम पास आ गए हैं। मैं, आर.आई.सी. सेंटर और कम्युनिटेक में हमारे साझेदारों का धन्यवाद करता हूँ और ब्रैम्पटन के हमारे छोटे और मध्यम कारोबारियों को सलाह देता हूँ कि वे StaySafe प्रोग्राम के द्वारा, अपनी रैपिड टेस्ट स्क्रीनिंग किट्स सुरक्षित कर लें।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“साझेदारियां और नवीन सोच, सुरक्षित रूप से ज़िंदगी संचालित करने में हमारी मदद करते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, जब हम कोविड-19 महामारी से बाहर निकल रहे हैं। आर.आई.सी. सेंटर और कम्युनिटेक के साथ हमारे सहयोगात्मक प्रयास और छोटे और मध्यम कारोबारियों के लिए रैपिड टेस्टिंग के प्रयोग के द्वारा, हम पूरे आत्मविश्वास के साथ हमारे शानदार लोकल कारोबारियों की मदद करते हुए, ब्रैम्पटन के निवासियों को और ब्रैम्पटन में हमारे समर्पित श्रमिकों को सुरक्षित रखना जारी रखेंगे।”

- मार्टिन मेडेइरोस (Martin Medeiros), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 3 और 4; चेयर, इकोनॉमिक डिवेलपमेंट, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“चूंकि हम कोविड-19 महामारी के प्रभावों से बाहर निकल रहे हैं, हमारे लिए लोकल अर्थव्यवस्था की बहाली के लिए इकट्ठे मिलकर काम करते हुए, ब्रैम्पटन में हमारे निवासियों और श्रमिकों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते रहना आवश्यक है। हम ब्रैम्पटन की सभी योग्य कंपनियों को सलाह देते हैं कि वे StaySafe प्रोग्राम के द्वारा, अपनी रैपिड टेस्ट स्क्रीनिंग किट्स ले लें। सुरक्षा को सबसे पहले प्राथमिकता देकर, हम पूरे आत्मविश्वास के साथ और सुरक्षित रूप से, हमारे शानदार लोकल कारोबारियों की सहायता कर सकते हैं।”

- पॉल विसेंट (Paul Vicente), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5; वाइस-चेयर, इकोनॉमिक डिवेलपमेंट एंड कल्चर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“सिटी ऑफ ब्रैम्पटन में स्टाफ, हमारे लोकल कारोबारियों की सहायता करते हुए, हमारी कम्युनिटी में हमारे निवासियों और श्रमिकों को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है, जब हम शहर को दुबारा खोलने के प्रांत के स्टेप वन में दाखिल हो रहे हैं। आर.आई.सी. सेंटर

और कम्युनिटेक में हमारे साझेदारों का धन्यवाद। रैपिड टेस्ट, हमारी कम्युनिटी में कोविड-19 को फैलने से रोकने में मदद करेंगे और लोकल अर्थव्यवस्था की बहाली को सुनिश्चित करेंगे।”

- डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

"आर.आई.सी. सेंटर को इस प्रोजेक्ट में साझेदार होने पर गर्व है, जिसका उद्देश्य हमारी अधिक से अधिक कम्युनिटी को सुरक्षित रखने में मदद करना है। StaySafe जैसे प्रोग्राम ही हैं, जो पहले जैसी ज़िंदगी में वापस लौटने और ऐसा करते हुए सुरक्षित रहने के बीच के अंतर को खत्म करने में मदद कर रहे हैं। बदलाव के लिए इनोवेशन कैटालिस्ट के तौर पर, आर.आई.सी. सेंटर इस प्रोग्राम को शुरू होते हुए देखने के लिए उत्साहित है और हमारे योग्य संगठनों को साइन अप करने की सलाह देता है।"

- पैम बैंक्स (Pam Banks), एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, आर.आई.सी. सेंटर

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 70,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोआर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca